



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 मार्च, 2021

चैत्र 4, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 103/23-2-21-7(सा10)-2021

लखनऊ, 25 मार्च, 2021

अधिसूचना

प0आ10-100

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला गोरखपुर में राप्ती नदी के बढ़या चौक घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला गोरखपुर में बढ़या चौक घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला गोरखपुर में बढ़या चौक घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर पर परगना के नाम	नदी के दोनों ओर पर ग्रामों के नाम	नदी जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम	नौघाट की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
गोरखपुर	हवेली	बढ़या चौक, नगरा, करतहरी, रघुनाथपुर, सिसई, उसका	राप्ती नदी	बढ़या चौक घाट	“सी”

किनारा	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
7	8	9	10	11
बाँया	बढ़या चौक	0.80 कि०मी०	करतहरी	0.60 कि०मी०
दाँया	रघुनाथपुर	0.70 कि०मी०	नगरा	0.80 कि०मी०

आज्ञा से,  
नितिन रमेश गोकर्ण,  
प्रमुख सचिव।